

Name : **Mr. PRAVEEN KAUSHIK**

Billing Address : S/O BRAHM PRAKASH KAUSHIK H NO-96
S/F (LEFT SIDE) GALI NO-1 VILLAGE
KHICHRI PUR DELHI 110091

Sanctioned Load	: 2.00 (kW)
Contract Demand	:
MDI	: 1.24 (kW)
Power Factor	: 1.000
Pole No	: MVRPK067S1
Walking Sequence	: VKP020150A0CT
Cycle No.	: 24
Tariff Category	: Domestic [Residential]

CA No. : **151749374**
 Energisation Date : 05-03-2016
 Meter Type : 1PSK
 Supply Type : LT
 Bill No. : 100699557444
 Bill Basis : Actual
 O.D. No. : Y/26/11543587551
 CCTV Tagged : No
 Street Light Tagged : No
 Wi Fi Tagged : No

Mobile /Tel No. : 99*****30
Email ID : s*****0@gmail.com
District/Division : Mayur Vihar I&II
Meter Reading Status : DL
Bill Month : MAY-26
Bill Date : 22-05-2026

You may apply for Security Refund & Supply Reconnection through BSES Website/Mobile App (My Account).
अब सिक्पेरिट्टी रिफंड व सप्लाई रीकनेक्शन BSES वेबसाइट / मोबाइल ऐप (माय अकाउंट सेक्शन) से करें ।

[illegible]

Billing Details (बिल का विवरण)	
--------------------------------	--

Current Period Charges (वर्तमान अवधि का शुल्क) (21-04-2026 to 19-05-2026)

**"LET'S MOVE TO ELECTRIC VEHICLES FOR BETTER TOMORROW
(अच्छे भविष्य के लिए विद्युत वाहन की तरफ बदलाव करें)"**

Fixed Charge="A" ₹ (स्थायी शुल्क)	Consumption Measured During (खपत अवधि माप)	Energy Units Consumed / Billed (खपत / बिल में शामिल विद्युत यूनिट)	Slabwise Energy Charge (स्लेब आधारित विद्युत शुल्क)		Slab-wise Power Purchase Adjustment Charge (स्लेब आधारित विद्युत ऋण समंजन शुल्क)		Time of Day (TOD) Charge टॉइम ऑफ डे (टैजोबी) शुल्क		Surcharge @ 8% on (Energy Charge + Fixed Charge - Rebate) = "E" ₹ (विद्युत शुल्क + त्थायी शुल्क - रूट, पर 8% अधिभार)	Electricity Tax @ 5% on Energy charges and the Energy charge Component of PPAC, RA Surcharge, TOD Surcharge / Rebate = "H" ₹ (विद्युत कर @5% ऊर्जा शुल्क और पीपीएसी, आरए सरचार्ज, टैजोबी अधिभार / रूट का ऊर्जा प्रसार घटक)	Total Amount (K = A+B+C+D+E+ F+G+H+I+J) ₹ (कुल राशि)
			Units Rate ₹ (यूनिट दर)	Amount = "B" ₹ (राशि)	PPAC % on B (B पर पीपीएसी प्रतिशत)	PPAC Amount = "C" ₹ (पीपीएसी राशि)	TOD % on "B" (B पर टैजोबी प्रतिशत)	TOD Surcharge/ Rebate Amount = "D" ₹ (टैजोबी अधिभार / रूट राशि)			
37.85 0.94 Mth(s)		190.00	3.00	570.00	11.71	66.75			77.79	55.93	1288.00
PPAC on Fixed Charge = "G" ₹		81.00	4.50	364.50	11.71	42.68			Pension Surcharge @ 1% on (Energy Charges + Fixed Charge - Rebate) = "F" ₹		
4.43									TCS Amount ₹ "I"		
CCTV Units									Base Amt.	Surcharge	
0.00											
Street Light Units										Other Charges "J" *	
Wi-Fi Units										CCTV Bill Amount	
	Total Units = 271		Total (B) = 934.50		Total (C) = 109.43		Total (D) =		0.00		



Scan to pay via " BYPL Connect" Mobile App

Past Dues / Refunds / Subsidy (पिछला बकाया / वापसी / सब्सिडी)

Consumer registered under GST may submit it's GSTIN at concerned division

Provisional Bill Refunds/ (वापसी)		Arrears (बकाया)		Late Payment Surcharge (LPSC)	Total Charges Payable	Rebate / Subsidy*	Net Amount Payable
Refund Unit	Refund Amount	Amount (राशि)	Period to which it relates (जिस अवधि से संबद्ध है)	(देरी से मुगतान पर अधिभार)	(कुल देय शुल्क)	(छूट / सब्सिडी)	(कुल देय राशि)
0		(92.39)		0.11	1195.72	/(756.99)	438.73

Amount not immediately payable, if any. (राशि जो तुरंत देय नहीं है, यदि हो तो)		BG Security Deposit	₹
₹		BG Expiry Date	
Service line cum Development Charges paid (भुगतान किया गया सर्विसलाइन एवं डेवलपमेंट शुल्क)	₹ 3000.00	Cash Security Deposit	₹ 1200.00
Interest accrued for FY 2025-26, already adjusted in bill No. 100011915162 (generated for the period 21-03-2026 to 20-04-2026)			₹ (88.92)
Interest for FY 2026-27 will be adjusted in your first bill to be generated in FY 2027-28			

Bill Amount Payable
(बिल देय राशि)

₹ 440.00

Due Date of Payment
(भगतान देय तिथि) 06-06-2026

If payment is made after the due date, LPSC for the delay, shall be charged in the next bill.
(नियत तिथि के बाद भुगतान करने पर इस विलंब हेतु अगले बिल में एलपीएससी जोड़ दिया जाएगा.)

Last payment ₹ 110.00 received on 12-03-2026. Payment accounted upto 19-05-2026.

Consumption History (खपत का विवरण):

Period		No. of Days	Units (kWh/kVAh)	Total Bill Payable	Bill Basis
From	To				
21-03-2026	20-04-2026	31	114	(92.28)	Actual
19-02-2026	20-03-2026	30	96	(3.36)	Actual
21-01-2026	18-02-2026	29	216	110.00	Actual
19-12-2025	20-01-2026	33	274	370.00	Actual
20-11-2025	18-12-2025	29	122	(2.37)	Actual
22-10-2025	19-11-2025	29	94	(2.37)	Actual

Contact Details: (संपर्क संबंधी विवरणः)

Nearest Customer care & payment centre
SUBSTATION BUILDING,ADJ TO LSC POCKET
1,MAYUR VIHAR-1 NEW DELHI 110091 (Tel No:
41247410)
Business Manager : KUNAL SHARMA (41247408)
Commercial Officer : ARUN KUMAR SHARMA (41247409)
Vigilance Helpline Number : 8010930719

(This bill is computer generated, hence does not require any signature.)

IMPORTANT MESSAGE (महत्वपूर्ण सूचना)

GoNCTD vide Order No F.6/85/Power/2024/447-459 dated 14.Mar.2024 has extended subsidy to Domestic Consumers for Financial Year 24-25 of entire bill amount upto 200 Units/ month. Slab 201-400 Units/ month will get subsidy upto Rs 800/ month. No subsidy for consumption above 400 Units/month. Power Purchase Adj. Charge (PPAC) @ 11.71% been levied on energy & fixed charge w.e.f 10.04.2026. CCTV Bill amount included. In case any variation in SLD charges noted, consumer may visit divisional office for requisite correction. Pension Surcharge @ 7.00% has been levied on energy & fixed charge w.e.f. 01.10.2021. The amount of Security Deposit against your connection is mentioned herewith under the heading "Security Deposit with DISCOM". Please check this amount and report any discrepancy by furnishing documentary proof in that regard available with you, at the customer care centre of respective division office. Anyone treating Electricity Bill as conclusive proof of Residence is advised to

Payment Slip

- **Make your cheque/DD payable to BYPL CA No. 151749374**

Bill Month : MAY-26

Bill amount payable : ₹ 440.00

Cheque DD No.:

Date : _____

2400Y1517493740000000044000020260606000000000000

Keep your CA No. ready with you while calling BSES Helpline
(बीएसईएस की हेल्पलाईन पे कॉल करते वक़्त अपना सीए नम्बर साथ में रखें)

ECS and EBILL Customer

Opt for E-bill & earn 100 Reward Points. Call 19122/ Email at byp1.customercare@reliancegroupindia.com

SLCC

SLCC 35390\77542

ELECTRICITY BILL

Tariff structure

The revised tariff schedule is effective from 1st October 2021

		Energy Charge									Energy Charge	
		Fixed/Demand Charge		Energy Charge							Fixed/Demand Charge	Energy Charge
Categories	Description	Load(kW)	(₹/month)	0 - 200 Units	201 - 400 Units	401-800 Units	801-1200 Units	Above 1200 Units	Categories	Description	(₹/month)	
Domestic	Individual connections:	Upto 2kW	20kW/mth						Agriculture	Agriculture	125/kW/mth	₹ 1.50/kWh
	Domestic Light / Mixed Domestic Power, Farm House upto 21kW	>2kW to 5kW	50kW/mth						Mushroom	Mushroom Cultivation upto 100 kW	200/kW/mth	₹ 3.50/kWh
		>5kW to 15kW	100kW/mth	₹ 3.00	₹ 4.50	₹ 6.50	₹ 7.00	₹ 8.00	Public Utility	Delhi Jal Board, DMRC, Public Lighting etc.	250/kVA/mth	₹ 6.25/kVAh
		>15kW to 25kW	200kW/mth									
		>25kW	250kW/mth									
	Single point supply at 11kV for GHS- Domestic Lighting / Fan and Power	150kW/mth		₹ 4.50/kWh					Delhi International Airport Limited (DIAL)		250/kVA/mth	₹ 7.75/kVAh
									Advertisements and Hoardings		250/kVA/mth	₹ 8.50/kVAh
Non-Domestic	Shopkeepers	Upto 3kVA	250 kVA/mth	₹ 6.00/kVAh					Charging Stations for E-Rickshaw/ E-Vehicle on Single Point Delivery		LT	₹ 4.50/kWh
	Other Non-Domestic	>3kVA		₹ 8.50/kVAh							HT	₹ 4.00/kVAh
Industrial	Industrial	250/kVA/mth		₹ 7.75/kVAh								

Schedule of Time of Day (TOD) Tariff

Month	Peak hours	Surcharge on Energy Charges	Off-Peak hours	Rebate on Energy Charges
May-September	1400-1700 hrs and 2200-0100 hrs	20%	0400-1000 hrs	20%

For other than peak & off-peak hours normal energy charges are applicable. Mandatory for >10kW / 11kVA other than Domestic. Optional for 3 Phase Domestic Consumers.

Consumer Grievance Redressal Mechanism / शिकायत का पंजीकरण एवं वर्तमान स्थिति

For any query/complaint, you may contact us using any of the following touch points / आप किसी भी निवेदन / पूछताछ / शिकायत के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी का चयन करके हमसे सम्पर्क कर सकते हैं -

- 24 Hrs Call Center / सम्पर्क केन्द्र No. 19122
- Customer Care Centres / ग्राहक सेवा केन्द्र (Mon-Fri 09:30 AM to 05:30 PM & Sat - 09:30 AM to 01:00 PM)
- Online through Complaint section on BSES Web site www.bsesdelhi.com or e-mail at bypl.customercare@reliancegroupindia.com or BSES MobiApp

Complaint Management: Three Tier Grievance Redressal Structure

TIER-I (BYPL Complaint Escalation & Redressal Structure)

If not satisfied with the resolution received, you may visit the Customer Care Center and meet the following officials with complete details

Level 1 – Area Manager / क्षेत्र प्रबंधक

Level 2 – Business Manager(BM) / शाखा प्रबंधक

Level 3 – Circle Head (with prior appointment through Area Manager/ Business Manager) / सर्किल प्रबंधक (ग्राहक सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से पूर्व अनुमति प्राप्त करें)

If still not satisfied with the resolution, you may write at (यदि फिर भी आप अपने किसी भी निवेदन / शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो आप लिख सकते हैं)

Level 4 – Head, Customer Services / मुख्यअधिकारी (ग्राहक उपभोक्ता)

Head, Customer Care, BSES Yamuna Power Limited, Corporate Annexe Building, CBD-3, Karkardooma, Delhi-110032

Internal Consumer Grievance Redressal Cell (ICGR) / आंतरिक उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (आईसीजीआरसी)

Contact No.: 011- 4124 9250 (Mon – Fri 09:30 AM to 05:30 PM)

Web site : https://byplw1.bsesdelhi.com/bypl_icgr

TIER – II (Independent Forum – CGRF)

If you are still not satisfied with the resolution/ response provided by BYPL, you may approach **Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF)**, Sub-Station Building, Adj to BYPL Head Office, Near Karkardooma Courts, Karkardooma, Delhi - 110032. Tel: 8010939760,

E-Mail : cgrfbypl@hotmail.com

Note : CGRF shall not entertain a complaint if it pertains to the subject matter for which proceedings are pending before any court. Further, CGRF does not have jurisdiction to adjudicate on matters related to assessment in relation to unauthorized use of electricity, Appeal against the assessment, Theft of Electricity, Power to adjudicate, Compounding of offences, Notice of accidents and inquiries etc. which fall u/s 126, 127, 135 to 140, 143, 152 & 161 of Electricity Act, 2003.

TIER – III (Independent Forum – Electricity Ombudsman)

If not satisfied with CGRF order, an appeal against CGRF orders may be filed with the **Electricity Ombudsman**, B-53, Pashchimi Marg, Opp. Tagore International School, Vasant Vihar, New Delhi - 110057. Tel: 011-26144979, E-Mail : elect_ombudsman@yahoo.com

Disclaimer - This electricity bill is only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and should not be construed as having bearing on the rights or titles over the premises.

अस्वीकरण: यह बिजली का बिल उपभोक्ता के निवास / कार्यालय पर बिजली की आपूर्ति के लिए है, और इसे उस स्थान पर उपभोक्ता के अधिकार या स्वाभिविमान समान न समझा जाए।



LET THE SUN PAY YOUR BILL!
Harness the Sun, Slash Your Electricity Bill to ZERO*!

Call: 19122 (Ext 3) *T&C Apply



अब सूरज चुकाएगा आपका बिल!
सौर ऊर्जा अपनाइए और बिजली का बिल घटाइए-मुक्त तक!

कॉल करें: 19122 (एक्सटेंशन 3) * नियम व शर्त लागू



मुफ्त कानूनी सहायता (Free Legal Aid)
मुक्त कानूनी सेवाओं के लिए आप दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLISA) से संपर्क करें: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर, नई दिल्ली।

हेल्पलाइन: 1516 (24x7) टेल ग्री: ई-मेल: lae-dslisa@gov.in, website: www.dslisa.org, [t1-facebook.com/dslisa](https://t1.facebook.com/dslisa)
अथवा आप किसी भी विश्व न्यायालय परिसर में स्थित स्थित विधिक सेवाएं प्राधिकरण (DLISA) के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

विजिली से संबंधित विवाद के विपरीत / समाधान के लिए संपर्क करें।

- स्वाची लोक अदालत - I&II (PLA-I&II) (वीएसईएस आरपीएल, बीएसईएस वार्डोएल, और टीपीडीडीएल के लिए) माता चुनौती लेब, अदोलीओ के पास, नई दिल्ली - 110002.
- स्वाची लोक अदालत - III (PLA-III) (केवल बीएसईएस आरपीएल) पीवीआर रोड, जी-ब्लॉक, पीवीआर के पास, विकसित पुरी नई दिल्ली - 110018.

आपका बिल भुगतान

बिल भुगतान सूचना

भुगतान विकल्प

- आप 4000 रुपये तक के अपने बिल का भुगतान नकद / चेक / डीडी / पे ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। 4000 रुपये से अधिक की रकम का भुगतान चेक / डीडी / पे ऑर्डर के माध्यम से करना होगा।
- डीडीआरसी के हालिया टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक, सभी उपभोक्ताओं (घरेलू, कृषि और मशरूम की खेती को छोड़कर) के लिए यह आवश्यक है कि वे 20,000 रुपये से अधिक के बिलों का भुगतान 1 अक्टूबर, 2021 से डिजिटल माध्यमों से करें।
- विभिन्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आरडब्ल्यू ऑफिस और विभिन्न काउंटर / किर्यान्स पर लगे हमारे ड्रॉप बॉक्सों में आप अपना चेक डालें। ड्रॉप बॉक्सों की लिस्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बिल भुगतान करते समय ये बातें याद रखें

- कंप्यूटरीकृत बिल पाने के बाद ही अपने बिजली बिल का भुगतान करें।
- अनाधिकृत एजेंसियों / दलालों को भुगतान न करें।
- अगर आपका चेक बैंक द्वारा बरीर भुगतान के / अस्वीकृत होकर वापस आ जाता है, तो चेक वापसी शुल्क (मौजूदा 200/- रुपये) वसूला जाएगा और निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
- अगर उपभोक्ता का चेक 3 महीने की अवधि के भीतर दोबारा अस्वीकृत हो जाता है तो डीडीआरसी का निर्देश 6.21 अनुबंधित करता है कि अगले 6 महीने की अवधि के लिए डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ही भुगतान करना होगा।

Paying your electricity bill (Bill payment Information)

Payment Options

- You can pay your bill by cash/ cheque/DD Pay Order up to ₹ 4000/- and for amount more than ₹ 4000/- by cheque/DD/ Pay Order.
- According to DERC's recent tariff order, it is mandatory for all consumers (except Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation) to pay their monthly electricity bills exceeding Rs 20,000/- through digital modes w.e.f October 1, 2021*
- Drop your cheque in our drop boxes at various shopping complexes, RWA offices or Counters/Kiosks. The list of drop boxes is available on the website.

Points to remember while paying your bill

- Please pay your electricity bill only on obtaining computer generated bill.
- Do not make payment to unauthorized agencies/touts.
- In case your cheque is returned unpaid / dishonored by bank, cheque return charges (presently Rs 200/-) will be imposed and action will be taken under Section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881.
- In case a consumer's cheque is dishonoured for the second time within the next three months; DERC directive 6.21 stipulates that the future payments are to be received only by DD up to a period of next six months.

VIRTUAL CUSTOMER CARE CENTER

Say Goodbye to Queue! Connect with Us Virtually from Anywhere!

No need to visit the BYPL Customer Care Center.

You can get the similar service by using Smart Phone/ Laptop/ Desktop.

Connect instantly with our Customer Care Executive via Video Call (ZoomApp)

How to Connect:

- Scan the QR Code
- Join the Video Call
- Connect with the Virtual Customer Care Center

Note:

- Ensure the Zoom App is installed on your smart phone.
- Ensure your microphone is turned on during the call.
- You can also connect with Virtual Customer Care Center through following modes: BSES Website - www.bsesdelhi.com (BSES Yamuna Power Ltd.), Mobile App "BYPL Connect" and WhatsApp No. 8745999808

For details log on to our website www.bsesdelhi.com. Alternatively, you can visit our Customer Care Center or simply call at 19122

Regd. Office: BSES Yamuna Power Limited (A joint venture of Reliance Infrastructure Ltd. and Govt. of NCT of Delhi) Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi 110032
CIN No. : U40109DL2001PLC111525, GSTIN.: 07AABCC8569N120, Toll Free No. 19122, Fax No. : 011 30813598, Website : www.bsesdelhi.com

BSES
BSES Yamuna Power Limited

